



**दिनांक- 03.09.2022**

## **थाना रुरा पुलिस द्वारा वांछित 10,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को 01 किलो 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया ।**

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.09.2022 को 10,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को 01 किलो 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 14.2.2022 को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय किये जाने जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 055/20 धारा 8/20/22/23/25/60 NDPS ACT थाना रुरा में पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त मयंक बाजपेई उर्फ पुत्तू बाजपेई पुत्र श्याम शरण बाजपेई निवासी ग्राम गहलों थाना रुरा जनपद कानपुर देहात जो कि लगभग 06 माह से फरार चल रहा था जिस पर 10,000 हजार रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। जिसे आज दिनांक- 03.09.2022 को रुरा पुलिस द्वारा 01 किलो 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

**पूँछताछ का विवरण-** अभियुक्त द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि वह चंपारण बिहार एवं नेपाल के साथियों से मादक पदार्थ मंगाकर पैसों के लिये क्रय विक्रय करता था।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1. मयंक बाजपेई उर्फ पुत्तू बाजपेयी पुत्र श्याम शरण बाजपेयी निवासी ग्राम गहलों थाना रुरा जनपद कानपुर देहात  
**बरामदगी-**

1. 01 किलो 200 ग्राम चरस

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 55/22 धारा 8/20/22/23/25/60 NDPS ACT थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

2. मु0अ0सं0 329/2022 धारा 8/22 NDPS ACT थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

3. मु0अ0सं0 15/2005 धारा 18/20 NDPS ACT थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार यादव थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

2. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

3. का0 682 सुमित कुमार थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

4. का0 1128 साहिल श्रीवास्तव थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

5. का0 974 सुमित कुमार थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

6. का0 715 रोहित कुमार थाना रुरा जनपद कानपुर देहात

**मीडिया सेल  
जनपद कानपुर देहात।**